

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमति क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 463]

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 29 नवम्बर 2018 — अग्रहायण 8, शक 1940

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, रायपुर

रायपुर, दिनांक 26 नवम्बर 2018

अधिसूचना

क्रमांक 9581/वि. स./स्था./2018. — छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम 1990 के नियम 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए माननीय अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ विधान सभा एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय सेवा अधिनियम 1981 के अंतर्गत निर्मित सचिवालय (भर्ती तथा सेवा शर्तें आदेश) नियम 1990 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय (भर्ती तथा सेवा शर्तें नियम) 1990 के कंडिका 3 (24) में उल्लेखित पद सहायक ग्रेड-3 हेतु अर्हताएं में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है.

कंडिका क्रमांक	पद	अर्हताएं
3 (24)	सहायक ग्रेड-3	1. मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण. अथवा पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय के स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण. 2. मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री आपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाण-पत्र तथा, 3. कम्प्यूटर में हिन्दी टायपिंग का 5,000 की (Key) डिप्रेशन प्रतिघंटा की गति (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी).

आदेशानुसार

हस्ता./-
(चन्द्र शेखर गंगराड़े)
सचिव.